

जग ऐवे नहीयो जोगी दा दीवाना

जग ऐवे नहीयो जोगी दा दीवाना,
पाला पौणाहारी जोगी नाल याराना,
निमानिया दा मान रखदा पौणाहारी,
उचियाँ दी ओट रखदा है पौणाहारी,

पाप निवारण आया जोगी सब न तारण आया जोगी,
ताहियो चरना ते झुकदा जमाना,
जग ऐवे नही जोगी दा दीवाना,
निमानिया दा मान रखदा पौणाहारी,
उचियाँ दी ओट रखदा है पौणाहारी,

कष्ट कोई भी पैन न देवे थोड़ कोई भी रेहन न देवे,
दोवे हथा नाल लुटा न दा ो खजाना,
पाला पौणाहारी योगी नाल याराना,
निमानिया दा मान रखदा पौणाहारी,
उचियाँ दी ओट रखदा है पौणाहारी,

सुन सागर हूँ देर न लाइये चल उठ दर्शन करके आइये.
मणि सागर हूँ देर न लाइये चल उठ दर्शन करके आइये
हाथो खिस जे न समा है सोहना जग ऐवे नई जोगी दा दीवाना,
निमानिया दा मान रखदा पौणाहारी,
उचियाँ दी ओट रखदा है पौणाहारी,

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/8925/title/jag-eve-nhiyo-jogi-da-diwana-paala-paunahari-jogi-naal-yaarana>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |